



# जनता से रिश्ता

www.jantaserishta.com

## यूपी का आरोपी गिरफ्तार, हरियाणा में पकड़ी गई लाखों रुपये की नकली नोट

हिसार: पुलिस की सीआईए टीम ने एक व्यक्ति को 2 लाख 56 हजार की नकली नोट (Fake notes recovered in Hisar) के साथ गिरफ्तार किया है. रवि नाम का यह व्यक्ति राजगुरु मार्केट हिसार में नकली करेंसी लेकर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से आया था. सोशल मीडिया के जरिए उसका यूपी के व्यक्ति से संपर्क हुआ था जो उसे लखनऊ में नकली नोट देता था. गिरफ्तार व्यक्ति अलग-अलग शहरों में जाकर इन नकली नोटों की सप्लाई करता था. इंस्पेक्टर प्रहलाद राय ने बताया कि उत्तर प्रदेश से आया संदिग्ध युवक हिसार की व्यस्त बाजार राजगुरु मार्केट आया था. वो नागोरी गेट के आस-पास शाम के समय नकली नोट भीड़ में चलाने की फिराक में था. पुलिस ने इस संदिग्ध युवक को काबू कर उसकी तलाशी ली तो उसके पास से लाखों रुपये के नकली नोट बरामद हुए. गिरफ्तार व्यक्ति का नाम रविकान्त उर्फ रवि है. उसके जींस पैंट की साईड वाली दोनो जेबों से 500 रुपये की चार गड्डी मिली. वहीं दो गड्डी 200 रुपये के नोट की मिली. नोटों की जांच करने पर वो नकली निकले. बरामद नकली नोटों की गिनती करने पर 500 के कुल 420 नोट, 200 के 225 नोट और 100 रुपये के 11 नकली नोट निकले. बरामद नकली करेंसी को कब्जे में लेकर रविकान्त उर्फ रवि के खिलाफ थाना शहर हिसार में आईपीसी की धारा 489C (नकली भारतीय करेंसी रखने का अपराध) के तहत केस दर्ज किया गया है. कहां से आते थे नकली नोट- सीआईए प्रभारी ने बताया कि पुलिस टीम द्वारा की गई शुरुआती जांच में सामने आया कि गिरफ्तार आरोपी रविकांत उर्फ रवि उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के पछियांव मोहल्ला नवाबगंज में खाद बीज की दुकान चलाता है. इसने करीब तीन चार महीने पहले लखनऊ निवासी समीर के साथ सोशल मीडिया पर बात की थी. समीर ने इसे लालच दिया कि वह नकली नोटों का काम करता है जो बिल्कुल असली जैसे ही होते हैं. जिसे किसी बड़ी पार्टी या परचून दुकान में चलाकर काफी मुनाफा कमाया जा सकता है. दोनों की बात हुई और रविकांत समीर से नकली नोट लेने के लिए लखनऊ पहुंच गया.

Source: <https://jantaserishta.com/local/haryana/up-accused-arrested-fake-currency-worth-lakhs-caught-in-haryana-1354601>